



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]
No. 2]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 2, 1978/पौष 12, 1899

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 2, 1978/PAUSA 12, 1899

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 2 (अ०).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तम्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिमूर्चना सं० 91/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 अप्रैल, 1975 का अधिक्रान करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्लार्डबुड और पट्टी (बोर्डों) के लिए, जो उक्त अधिनियम की प्रथम अनुमूर्ची की मद संख्या 16-अ के अन्तर्गत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभाव्य है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती है :

परन्तु—

- (1) उक्त सारणी को क्रम संख्या 1, 3 और 4 में उल्लिखित वस्तुओं की दशा में, जिनकी वास्तविक मोटाई उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मोटाई से कम या अधिक है, ऐसी किसी वस्तु के टैरिफ मूल्य का उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट मूल्य से वही अनुपात होगा जो उस वस्तु की वास्तविक मोटाई का उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट मोटाई से है ;
- (2) किसी श्रेष्ठफल और मोटाई की सजावटी प्लार्डबुड के लिए, टैरिफ मूल्य वही होगा जो उसी श्रेष्ठफल और मोटाई के वाणिज्यिक प्लार्डबुड का है और इसके अतिरिक्त

- (क) यदि प्लार्डबुड एक ओर से सजावटी है और लम्बाई में 1.83 मीटर या उससे अधिक है, तो, भारह रूपए प्रति वर्ग मीटर ;
- (ख) यदि प्लार्डबुड दोनों ओर से सजावटी है और उसकी लम्बाई 1.83 मीटर या उससे अधिक है तो, बाईस रूपए प्रति वर्ग मीटर ;
- (ग) यदि प्लार्डबुड एक ओर से सजावटी है और लम्बाई में 1.83 मीटर से कम है तो, छ रूपए प्रति वर्ग मीटर ;
- (घ) यदि प्लार्डबुड दोनों ओर से सजावटी है और लम्बाई में 1.83 मीटर से कम है तो, बारह रूपए प्रति वर्ग मीटर ;
- (3) किसी भी मोटाई के सजावटी हाई-बोर्डों के लिए टैरिफ मूल्य वही होगा जो उसी मोटाई के माथी सतह वाले मानक हाई-बोर्डों का है, और उसके अतिरिक्त —
 - (क) यदि हाई-बोर्ड एक ओर से सजावटी है और लम्बाई में 1.83 मीटर या उससे अधिक है तो, भारह रूपए प्रति वर्ग मीटर ;
 - (ख) यदि हाई-बोर्ड दोनों ओर से सजावटी है और लम्बाई में 1.83 मीटर से अधिक है तो, बाईस रूपए प्रति वर्ग मीटर ;
 - (ग) यदि हाई-बोर्ड एक ओर से सजावटी है और लम्बाई में 1.83 मीटर से कम है, तो, छ रूपए प्रति वर्ग मीटर ;
 - (घ) यदि हाई-बोर्ड दोनों ओर से सजावटी है और लम्बाई में 1.83 मीटर से कम है तो, बारह रूपए प्रति वर्ग मीटर ;

परन्तु यह और कि उक्त सारणी की क्रम सं० 4 पर उल्लिखित वस्तुओं का टैरिफ मूल्य वही होगा जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में, विद्युत रोधी बोर्डों के लिए, चाहे उनकी मोटाई कुछ भी हो, और जो प्राकृतिक रंग में पाए हैं, विनिर्दिष्ट है, और इसके प्रतिरक्षण—

- (क) ऐसे विद्युत रोधी बोर्डों की दशा में जिनका अग्र भाग ग्वेन है, 4 रु० 75 पै० प्रति वर्ग मीटर;
- (ख) ज्वालागोष्ठी अग्र भाग वाले बोर्डों की दशा में 7 रु० 75 पै० प्रति वर्ग मीटर;
- (ग) तारा उच्चित्रण की दशा में 4 रुपये 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर, और
- (घ) बुदबुद या वर्गाकार उच्चित्रण की दशा में 5 रु० 50 पै० प्रति वर्ग मीटर;

परन्तु यह भी कि उस अधिसूचना में अन्तर्बिष्ट कोई बात वृद्धिपूर्वक प्लाईवुड और बोर्डों तथा प्लाईवुड और बोर्डों की रद्द और अपगिष्टों को, जिनमें कनरत और छीजन भी सम्मिलित हैं, लागू नहीं होगा।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	प्रति वर्ग मीटर पर टैरिफ मूल्य
(1)	(2)	(3)
1	वाणिज्यिक प्लाईवुड—	रु० पै०
(क)	जिसका क्षेत्रफल 5625 वर्ग सेंटीमीटर या उससे कम है,	8 30 (जहां मोटाई 4 मिलीमीटर है)
(ख)	जिसका क्षेत्रफल 5625 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक है।	9 75 (जहां मोटाई 4 मिलीमीटर है)
2	चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड जब कि वह पट्टों या पट्टियों के आकार में काटी गई हों और सेटों में पैक की गई हों।	9 75
3	गैर-सजावटी हार्ड-बोर्ड—	
(क)	मांश सड़ने वाले मानक हार्ड-बोर्ड	6 25 (जहां मोटाई 3 मिलीमीटर है)
(ख)	उच्चित्रित हार्ड-बोर्ड	9 00 (जहां मोटाई 3 मिलीमीटर है)
(ग)	तैलाक्त हार्ड-बोर्ड	10 50 (जहां मोटाई 3 मिलीमीटर है)
4	खोई, गुसे, पटसन अपगिष्ट या पटसन सिटक से बने विद्युत रोधी बोर्ड/प्राकृतिक रंग के सादे।	16 50 (जहां मोटाई 12 मिलीमीटर है)
5	काष्ठ छीलन से बने विद्युत रोधी बोर्ड	3 50 (जहां मोटाई 4 मिलीमीटर है)

स्पष्टीकरण 1. वाणिज्यिक प्लाईवुड से निम्नलिखित से भिन्न सभी किस्मों के प्लाईवुड अभिप्रेत हैं—

- (i) सजावटी प्लाईवुड;
- (ii) अग्निसह प्लाईवुड, ज्वालासह प्लाईवुड, संरचनात्मक प्लाईवुड, पोतीय प्लाईवुड और वायुयान प्लाईवुड
- (iii) चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड, जब कि वे पट्टों और पट्टियों के आकार में काटी गई हों और सेटों में पैक की गई हों (उक्त सारणी की क्रम संख्या 2 में निर्दिष्ट)।

स्पष्टीकरण 2. इस अधिसूचना में, "लम्बाई" से, उस और की लम्बाई अभिप्रेत है जो अधिक लम्बी हो, चाहे वह काष्ठ रेखा के समानांतर या काष्ठ रेखा के आर-पार हो या न हो।

स्पष्टीकरण 3. द्विचित्र बोर्ड, चाहे वे उक्त सारणी की क्रम सं० 3 के अन्तर्गत आते हों या क्रम संख्या 4 के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के अधीन शुल्क से प्रभाव्य होंगे।

[सं० 1/78 सी ई/क्रा० सं० 7/13/77-सी एक्स-1]

भुवनेश्वर प्रसाद, भवन-सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

New Delhi, the 2nd January, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 2(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 91/75-Central Excises, dated the 4th April, 1975, the Central Government hereby fixes for plywood and boards specified in column (2) of the Table below and chargeable with duty *ad valorem* under Item No. 15B of the First Schedule to the said Act, the tariff value specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

Provided that—

- (i) in the case of articles mentioned at Serial Nos. 1, 3, 4 and 5 of the said Table, in respect whereof the actual thickness is less or more than that specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, the tariff value of any such article shall bear to the value specified in column (3) of the said Table the same proportion as the actual thickness of that article bears to the thickness specified in the said column;
- (ii) the tariff value of decorative plywood of any area and thickness shall be the same as that for commercial plywood of the same area and thickness, plus
 - (a) eleven rupees per square metre if the plywood is decorative on one side and if the length is 1.83 metres and above;
 - (b) twenty two rupees per square metre if the plywood is decorative on both sides and if the length is 1.83 metres and above;
 - (c) six rupees per square metre if the plywood is decorative on one side and if the length is less than 1.83 metres;
 - (d) twelve rupees per square metre if the plywood is decorative on both sides and if the length is less than 1.83 metres;
- (iii) tariff value for decorative hardboards of any thickness shall be the same as that for plain surface standard hardboards of the same thickness, plus
 - (a) eleven rupees per square metre if the hardboard is decorative on one side and if the length is 1.63 metres and above;
 - (b) twenty two rupees per square metre if the hardboard is decorative on both sides and if the length is 1.83 metres and above;
 - (c) six rupees per square metre if the hardboard is decorative on one side and if the length is less than 1.83 metres;
 - (d) twelve rupees per square metre if the hardboard is decorative on both sides and if the length is less than 1.83 metres;

Provided further that the tariff values of articles mentioned at Serial No. 4 of the said Table shall be the same

as that specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, for the insulation boards plain in natural colours irrespective of the thickness, plus

- (a) four rupees and seventy-five paise per square metre in the case of white faced insulation boards;
- (b) seven rupees and seventy-five paise per square metre in the case of flame retardant faced boards;
- (c) four rupees and eighty paise per square metre in the case of star embossing; and
- (d) five rupees and fifty paise per square metre in the case of bubbles or square embossing:

Provided also that nothing contained in this notification shall apply to defective plywood and boards and rejects and wastes of plywood and boards including cuttings and trimmings.

TABLE

Sl. No.	Description	Tariff values in rupees per sq. mt.
(1)	(2)	(3)
1.	Commercial plywood—	
	(a) in area 5,625 square centimetres or less;	8.30 (where the thickness is 4 millimetres).
	(b) in area exceeding 5,625 square centimetres.	9.75 (where the thickness is 4 millimetres).
2.	Plywood for tea chests when cut to size in panels or shooks and packed in sets.	9.75
3.	Non-decorative hardboards—	
	(a) Plain surface standard hardboards;	6.25 (where the thickness is 3 millimetres).

- | (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--|
| (b) | Embossed hardboards; | 9.00 (where the thickness is 3 millimetres). |
| (c) | Oil-tempered hardboards. | 10.50 (where the thickness is 3 millimetres). |
| 4. | Insulation boards made from bagasse, straw, jute waste or jute sticks. Plain in natural colour. | 16.50 (where the thickness is 12 millimetres). |
| 5. | Insulation boards made from wood wool. | 3.50 (where the thickness is 4 millimetres). |

EXPLANATION I Commercial plywood shall mean all varieties of plywood other than—

- (i) decorative plywood;
- (ii) fire-proof plywood, flame-proof plywood, structural plywood, marine plywood and aircraft plywood;
- (iii) plywood for tea chests, when cut to size in panels and sheeks and packed in sets (referred to in Serial No. 2 of the said Table).

EXPLANATION II—In this notification “length” means the length of the side whichever is longer irrespective of its being parallel to the grain or across the grain.

EXPLANATION III—Perforated boards whether falling under Serial No. 3 or 4 of the said Table shall be charged to duty under section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[No. 1/78-CEF. No. 7/13/77-CX I]
B. PRASAD, Under Secy.

